

संपादकीय

नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड से भाजपा चिंतित

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले पार्टी की ओर से जिन नेताओं से संपर्क किया गया है उनमें पहला नाम नीतीश कुमार का है। सवाल है कि नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं फिर भाजपा को उनकी चिंता क्यों करनी चाहिए? ध्यान रहे नीतीश कुमार के पास महज 45 विधायक हैं, जबकि भाजपा 78 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है इसके बावजूद उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए कायदे से उसे नीतीश कुमार की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं की है। तभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार के पूर्व प्रभारी धर्मद प्रधान को पटना भेजा गया। बिहार प्रदेश भाजपा के नेता इस मामले से दूर रहे। प्रधान ने कोई दो घंटे नीतीश कुमार के साथ बिताए। बताया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव के बारे में नीतीश से बात की। इस बात भी चर्चा है कि दोनों के बीच नीतीश की भूमिका को लेकर भी बातचीत हुई। ध्यान रहे पिछले कुछ दिन से यह चर्चा है कि नीतीश बिहार छोड़ कर केंद्रीय भूमिका में जा सकते हैं। उनके एक, अणु मार्ग खाली कर सात, संकुल रोड जाने से भी इस चर्चा को बल मिला है। बहरहाल, भाजपा की चिंता का कारण नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने राष्ट्रपति के पिछले दो चुनावों में गठबंधन से अलग हट कर वोट किया। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी का समर्थन किया था। इसी तरह 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के समय वे राजद और कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था, जबकि कांग्रेस ने बिहार की दलित नेता मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया था। इसी ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भाजपा चिंतित है। ध्यान रहे नीतीश कुमार ने जब दूसरी बार यानी 2017 में जब महागठबंधन की बजाय एनडीए का समर्थन किया था तभी वे एनडीए में वापस भी लौटे थे। 2017 में ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें उन्होंने कोविंद का समर्थन किया और जुलाई के आखिर में वे एनडीए में लौट गए। इस बार भी कहीं ऐसी कहानी न दोहराई जाए इसलिए भाजपा पहले से घेराबंदी कर रही है। नीतीश को पता है कि उनके पास भले 45 विधायक हैं लेकिन उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। वे जिधर जाएंगे उधर की सरकार बनेगी। सो, भाजपा को चिंता है कि कहीं 2017 की तरह उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के साथ गठबंधन बदल कर लिया तो राज्य में राजद, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है और अगला लोकसभा चुनाव मुश्किल हो सकता है। तभी भाजपा की भागदौड़ राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि बिहार की सरकार और आगे की चुनावी संभावना के लिए है।

लखनऊ को ध्वस्त कर गुजरात प्लेऑफ में

पुणे। अफगानिस्तान के लेंग स्पिनर राशिद खान (24 रन पर चार विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस ने मंगलवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स को 62 रन से धूल चटाते हुए आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। गुजरात ने चार विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाये और लखनऊ को 135 ओवर में 82 रन पर डेर कर दिया। गुजरात की 12 मैचों में यह नौवां जीत है और वह 18 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गयी है। लखनऊ को 12 मैचों में चौथी हार का सामना करना पड़ा लेकिन वह 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।



गेंदबाजी की, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। गुजरात के तेज गेंदबाजों ने पहले पावरप्ले में धारदार गेंदबाजी करते हुए विकेट हासिल किए और फिर बाकी का काम राशिद और अपना पहला मैच खेल रहे साई किशोर ने कर दिया। राशिद ने दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या, जैसन होल्डर और आवेश खान के विकेट झटके। साई किशोर ने आयुष बदीनी और मोहसिन खान को आउट किया। मोहम्मद शमी ने लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल का विकेट लिया। दीपक हुड्डा ने 26 गेंदों पर सर्वाधिक 27 रन बनाये जबकि चंडिन डी कांक ने 11 और आवेश खान ने दो छकों के सहारे 12 रन बनाये। मार्क्स स्टॉयनिस दो रन बनाकर रन आउट हुए। गुजरात की तरफ से राशिद के चार विकेटों के अलावा यश दयाल और साई किशोर ने दो-दो विकेट लिए।

गुजरात की पारी में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने सात चौकों की मदद से सबसे ज्यादा 63 रन बनाये, लेकिन उन्होंने इस निजी स्कोर के लिए 49 गेंदें खेले। इसके अलावा ओपनिंग करने उतरे ऋद्धिमान साहा ने 11 गेंदों पर पांच रन, मैथ्यू वेड ने सात गेंदों पर 10 रन और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों पर 11 रन बनाये। डेविड मिलर के 26 (24) और राहुल तेवतिया के 22(16) की बदौलत गुजरात लखनऊ को 145 रन का लक्ष्य दे पाई।

लखनऊ की कसौटी हुई गेंदबाजी की बदौलत गुजरात अपनी पारी में सिर्फ एक छक्का लगा सकी। सूरजराईट्स के तेज गेंदबाज आवेश खान ने अपने चार ओवरों में 26 रन देकर दो विकेट झटके, जबकि मोहसिन खान ने अपने चार ओवरों में एक विकेट के बदले 18 रन दिये। कृणाल पांड्या ने अपने चार ओवर के कोटे में 24 रन दिये। लखनऊ की इकोनॉमिकल गेंदबाजी के बीच महंगे साबित हुए जैसन होल्डर ने 41 रन देकर एक विकेट लिया। गुजरात ने 144 रन का साहसिक ढंग से बचाव कर लिया और आधिकारिक रूप से प्लेऑफ के लिए चलीफाई करने वाली पहली टीम बन गयी। आज के मैच में उनके गेंदबाजों ने जिस तरीके की

जबकि मोहसिन खान ने अपने चार ओवरों में एक विकेट के बदले 18 रन दिये। कृणाल पांड्या ने अपने चार ओवर के कोटे में 24 रन दिये। लखनऊ की इकोनॉमिकल गेंदबाजी के बीच महंगे साबित हुए जैसन होल्डर ने 41 रन देकर एक विकेट लिया। गुजरात ने 144 रन का साहसिक ढंग से बचाव कर लिया और आधिकारिक रूप से प्लेऑफ के लिए चलीफाई करने वाली पहली टीम बन गयी। आज के मैच में उनके गेंदबाजों ने जिस तरीके की

धीमी पारी के ट्रोल हुए मैन ऑफ द मैच शुभमन गिल ने ट्वीट से जीता सबका दिल

नई दिल्ली। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज गिल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मैच में 49 गेंद पर नौटआउट 63 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके निकले। गिल ने 128.27 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। धीमी बल्लेबाजी के लिए ट्रोल हुए शुभमन मैच के बेस्ट स्कोरर ही नहीं मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। दरअसल पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रन बनाना सभी बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। मैच के बाद शुभमन ने अपने एक ट्वीट से सभी टॉल्स का मुंह बंद कर दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 144 रन बनाए। राहुल तेवतिया ने 16 गेंद पर 22 रन टोके। इस आर्टिकल को शेयर करते



हुए शुभमन ने कड़ुए और खराबोंश का इमोटीकॉन शेयर कर सबको यह कहानी याद दिला दी। जिसमें धीमी चाल वाला कड़ुआ अंत में खराबोंश से रस जीत जाता है। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 62 रनों से जीत दर्ज कर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली है। शुभमन गिल शुरुआती मैचों में भले ही फॉर्म में न दिखें हों, लेकिन पिछली कुछ पारियों से अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। अभी तक गिल 12 मैचों की 12 पारियों में 384 रन बना चुके हैं। गिल ऑनज कैप की दौड़ में अब टॉप-4 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं।

पेट्रोल-डीजल के दाम 35वें दिन भी रहे स्थिर

नई दिल्ली। देश में तेल विपणन कंपनियों ने आज 35वें दिन भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को 110 डॉलर प्रति बैरल की कीमत को पार कर चुकी नकचे तेल की कीमतों में आज हल्की कमी दिखी। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। मुंबई में पेट्रोल की

कीमत 120.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 104.77 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। यूक्रेन तथा रूस के बीच जारी जंग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में घट-बढ़ जारी है। अंतरराष्ट्रीय लंदन ब्रेंट क्रूड आज 1.76 प्रतिशत चढ़कर 104.34 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 1.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 101.52 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर कारोबार कर रहा है। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों 137 दिन की स्थिरता के बाद गत 22 मार्च से बढ़ती शुरू हुई थी।

प्लेऑफ की एक टीम हुई फाइनल, अब 8 टीमों के बीच 3 पायदानों के लिए होगी जंग

नई दिल्ली। आईपीएल 2022 फाइनल टैबल की बात करें तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने फिर से टॉप पर कब्जा जमा लिया है। 18 अंक गुजरात की टीम ने हासिल कर लिए हैं और इसी के साथ इस टीम ने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ के लिए चलीफाई कर लिया है। अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स पहले पायदान पर थीं दोनों टीमों के खाले में 16-16 अंक थे, लेकिन नेट रन रेट लखनऊ का बेहतर था। वहीं, आईपीएल 2022 के प्लेऑफ के लिए अब एक टीम फाइनल हो गई है, जबकि बाकी बचे तीन पायदानों के लिए अब 8 टीमों में जंग होगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रस से बाहर हो गई है। गुजरात ने चलीफाई कर लिया है, जबकि मुंबई बमुरिकल 10 अंकों तक पहुंच पाएगी। ऐसे में बाकी 8 टीमों के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है,



है, जबकि बाकी बचे तीन पायदानों के लिए अब 8 टीमों में जंग होगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रस से बाहर हो गई है। गुजरात ने चलीफाई कर लिया है, जबकि मुंबई बमुरिकल 10 अंकों तक पहुंच पाएगी। ऐसे में बाकी 8 टीमों के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है,

लेकिन अपने दम पर चलीफाई करने का मौका कुछ ही टीमों के पास है। मौजूदा समय में आईपीएल 2022 के प्लेऑफ के बाकी बचे तीन पायदानों पर कब्जा जमाने का मौका लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है। यही वो टीम हैं, जिनके खाले में 14 या इससे ज्यादा अंक हैं। लखनऊ के खाले में 16, राजस्थान और बेंगलोर के खाले में 14-14 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के पास 16-16 अंकों

तक पहुंचने का मौका है। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स 14-14 तक पहुंच सकते हैं। इनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना तभी संभव होगा, जब इन टीमों के हिसाब से बाकी टीमों के नतीजे आएंगे और मैं यही हो सकता है कि राजस्थान और बेंगलोर अपने बाकी के एक भी मैच न जीतें और दिल्ली समेत हैदराबाद और पंजाब भी सिर्फ 14-14 अंक तक पहुंच पाएं। इस स्थिति में नेट रन रेट के आधार पर केकेआर और सीएसके के पास चलीफाई करने का मौका होगा।

मर्सिडीज़-बेंज ने लाँच की नई सी-क्लास, शुरुआती कीमत 55 लाख

नई दिल्ली। लक्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज़-बेंज ने आज पांचवी पीढ़ी की नयी सी-क्लास को भारतीय बाजार में लाँच करने की घोषणा की जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर एक्स शोम्स शुरूआती कीमत 55 लाख रुपये है। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि नई सी-क्लास (डब्ल्यू206) अत्यधिक डिजिटल एवं सस्टेनेबल होने के साथ ही लक्जरी कम्फर्ट और स्पोर्ट्सिनेस के पसंदीदा पैकेज के साथ पेश की गयी है। मर्सिडीज़-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ मार्टिन थेंक ने कहा सी-क्लास को



भारतीय ग्राहकों ने हमेशा से बहुत पसंद किया है और इसके पास 37,000 से ज्यादा सी-क्लास ग्राहकों की निष्ठा है। ग्राहकों की अप्रत्याशित दिलचस्पी हमारी अपेक्षाओं को भी पार कर गई और हमें इसके लॉन्च से पहले ही 1000 बुकिंग

मिल गई, जिसके बाद यह आज बाजार में प्रस्तुत सबसे ज्यादा अपेक्षित लक्जरी कारों की सूची में आ गई। हम ये कारें जल्द से जल्द अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नई सी-क्लास इस साल हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों की शुरुआत का संकेत है। इस कार पर दो से तीन महैने की प्रतीक्षा कर रही है। श्री थेंक ने बताया कि सी-क्लास दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में से एक है, और आज के तकनीकी रूप से समझदार ग्राहकों की लक्जरी कार से जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें प्रतिबिंबित करता है। इनमें स्पोर्ट्स और

आधुनिक डिज़ाइन एवं लक्जरीपूर्ण कम्फर्ट के साथ मानव-केंद्रित इनोवेशन है। इस कार में आईएसजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ पॉवर एवं सर्वश्रेष्ठ फ्यूल इकॉनॉमी प्रदान करती है। नई सी-क्लास में फ्लैगशिप एक्-क्लास का डीएनए है, और इसमें मुख्य लक्जरी एक्वाईटमेंट्स के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे एनजीटी 7 इन्फोटेनेमेंट, लेटेस्ट जनेरेशन एआई पॉवर्ड एमबीयूएक्स, क्रांतिकारी कार टू एक्स कन्फिगुरेशन जैसी खूबियां हैं, जिनके कारण नई सी-क्लास भारत में मौजूद सबसे आधुनिक सी-क्लास है।

भारत आएगा ओमान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। ओमान का 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहां के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल युसुफ के नेतृत्व में 10 से 14 मई तक भारत का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, पर्यटन, दूरसंचार, ऊर्जा, जहाजहरानी तथा रिपल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी तथा व्यवसायी शामिल हैं। देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यात्रा इस कार्यक्रम में 11 मई को दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी राजधानी में आयोजित होने वाले भारत-ओमान संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) के 10वें सत्र में भाग लेंगे जिसकी संहय अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ओमान के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल युसुफ करेंगे। कार्यक्रम में 12 मई को भारत-ओमान संयुक्त व्यवसाय परिषद



(जेबीसी) की संयुक्त रूप से फिक्की तथा ओमान वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जेबीसी में दोनों पक्षों के मंत्रियों की सहभागिता होगी जो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे तथा भारत एवं ओमान के व्यवसाय समुदायों के साथ परस्पर बातचीत करेंगे। इस दौर के दौरान नयी दिल्ली एवं मुंबई में व्यवसाय कार्यक्रमों, उद्योग जगत के साथ परस्पर बातचीत, निवेशकों की बैठकों से संबंधित कार्यक्रमों तथा इसी प्रकार के अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान 82 प्रतिशत बढ़ कर 9.94 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

आज का राशिफल

मेघ : आज आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं, परंतु आपके विचार स्पष्ट न होने से उलझन बढ़ने की संभावना है। व्यवसाय में संधों का अनुभव होगा। लघु प्रवास होने की संभावना है।
वृष : उलझनपूर्ण मानसिकता के कारण महत्वपूर्ण अवसर छोड़ेंगे। जिद्दी स्वभाव के कारण किसी के साथ मतभेद हो सकता है। अपनी वाकपटुता से आप किसी को आकर्षित कर सकते हैं।
मिथुन : आज आप उत्साहित और स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। आज अच्छे करों और आभूषण पहनें। स्वादिष्ट भोजन करें और सगे-संबंधियों के साथ अपना दिन खुशी में व्यतीत होगा।
कर्क : परिवार में लोगों के साथ मतभेद हो सकता है और उसके कारण मन में भय रहेगा। उलझन के कारण महत्वपूर्ण निर्णय अभी न करें। किसी के साथ संघर्ष या विवाद होने की संभावना है।
सिंह : आज आपको लाभ होने की संभावना है, परंतु आपको महत्वपूर्ण स्थान न हो, तो मिला हुआ अवसर भी खोने की संभावना है। खी मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कन्या : नए कार्य शुरू करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई हैं, वो पूरी कर सकते हैं। पिता के साथ निकटता बढ़ेगी। मान-सम्मान बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तुला : साहसिक में रुचि रखने वाले बौद्धिक लोगों से मिलकर ज्ञान की चर्चा में समय व्यतीत होगा। नए काम की शुरुआत आज आप कर पाएंगे। विदेशगमन और विदेश स्थित आपके स्वजनों के समाचार पाने की संभावना है।
वृश्चिक : आज अपने स्वभाव और व्यवहार पर काबू रखना आवश्यक है। कोई नया कार्य आरंभ न करें। स्वास्थ्य खराब होने की संभावना होने से खानपान पर ध्यान रखें। अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है।
धनु : आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। आज आपके और आपके प्यार के बीच कोई आ सकता है। जीवनसाथी से तकरार मुमकिन है।
मकर : शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। बच्चे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपके ईमानदार और जिंदादिल प्यार में जादू करने की ताकत है। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा।
कुंभ : आज का दिन मनोव्यथा और भय से भरपूर रहेगा। विचार तेजी से बदलने के कारण आप दुविधा में रहेंगे और किसी निर्णय पर नहीं आ सकेंगे। सतान की चिंता परेशान करेगी। आपको पेट की तबलीफ होने की संभावना है। अचानक धन खर्च हो सकता है।
मीन : सेहत अच्छी रहेगी। खास लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे, जिसमें संभावना नजर आए और विशेष हो। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। प्यार-मोहब्बत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश न करें।

घर पर ही बनाएं लजीज 'मावा कचौड़ी'

सामग्री :
मैदा- 2 कप, घी या मक्खन- 1/4 कप, नमक- चुटकीभर, ठंडा पानी- आटा गूंधने के लिए।
भरावन के लिए- खोया- 200 ग्राम, इलायची पाउडर- 1/2 टीस्पून, बारीक कटे हुए मेवे- 2 टेबलस्पून, पीसी हुई चीनी- 3/4 कप।
चाशनी के लिए- चीनी- 1 कप, पानी- 3/4 कप, इलायची पाउडर- 1/2 टीस्पून, केसर के धागे- 5-7।
अन्य सामग्री- घी- फ्राई करने के लिए, ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए, केसर- गार्निशिंग के लिए, सिल्वर फॉयल- गार्निशिंग के लिए, सूखी गुलाब की पतियां- सजाने के लिए।
विधि :
आटा गूंधने के लिए- बाउल में मैदा, घी, नमक डालकर पहले सूखे हाथों से ही इसे अच्छी तरह मिस करें। अब धीरे- धीरे ठंडा पानी डालते हुए आटा गूंधेंगे। फिर इसे ढक्कर बाकी तैयारी करेंगे, तब तक आटा सेट हो जाएगा।
भरावन तैयार करने के लिए- घी गरम करें। इसमें खोया डालकर अच्छी तरह भूंगें। खोया भून जाने की निशानी है कि पेन पे पेन के किनारे छोड़ने लगता है। इसके बार गैस बंद कर देंगे। उसके



बाद इसमें इलायची पाउडर, ड्राय फ्रूट्स और पीसी हुई चीनी मिस करेंगे।
चाशनी के लिए - एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर गरम होने के लिए रख दें। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि एक तार की चाशनी न हो जाए। उंगलियों पर एक बूंद लेकर इसे बीच-बीच में चेक कर सकते हैं। गैस बंद करने के बाद इसमें इलायची पाउडर, केसर के धागे मिस करने हैं।
कचौड़ी की तैयारी - आटे को एक बार और अच्छे से गूंध लें। इसे 10-12 भागों में बराबर-बराबर बांट लें। इसे हल्का बेलकर इसमें मावे वाला भरावन भरेंगे। इसके बाद इसे चारों ओर से बंद कर हल्के हाथों से थोड़ा सा बेलेंगे। बहुत ज्यादा तपता नहीं करना होता है इसे कड़ाही में घी या तेल गरम करें। बेली हुई कचौड़ियों को तेल के अनुसार एक या दो-दो करके दोनों ओर से सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। सर्बिंग के लिए कचौड़ियों को किसी प्लेट में निकालकर हल्का ठंडा होने दें। चाशनी को हल्का गरम कर लें। इसके बाद कचौड़ियों को चाशनी में डुबोएं और चम्मच की मदद से इसे प्लेट में निकालें।
ऊपर से कटे हुए ड्राय फ्रूट्स, गुलाब की पतियां, सिल्वर फॉयल और केसर के धागे डालकर सर्व करें। सर्बिंग के लिए तैयार है गरमा-गरम मावा कचौड़ी।

शब्द सामर्थ्य- 69

बाएँ से दायें	21. विक्रय करना	22. वाणी, गया, नत	9. इधर-उधर, पास पड़ोस	11. किस्मत, तकदीर, रक्षा करने वाला	7. दयालु, रहम अंकों वाला पत्ता	25. नगर का, भाग्य	14. बंदर, मर्कट, कपि करने वाला (उ.)	10. युग, नागरिक, चतुर।	16. शक्तिशाली, बलवान	18. संतान, संतति	19. अस्तबल, हुड़साल	20. राजी करना, रुटे जिरासत	15. जानकी, परवाह न हो	2. मूर्ति 3. दोस्त, हनुए को प्रसन्न करना	23. सिरता, जनकनंदनी	17. व्यर्थ की बात, प्रेमी	4. कुशल, विशेषज्ञ	5. नदिया, नद।	18. नारी, स्त्री, महिला	8. झुका हुआ, झुकाया
---------------	-----------------	-------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------	-------------------------	---------------------

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 68 का हल

मा	म	ला	सि	वा	य	कि
लि	चा	ह	त	म	म	ता
क	सू	र	म	ग	न	ब
र			द			
क	मा	न	पा	र	स	स
मी	म	जा	ल	न	क	ली
ना	दा	न	ना	र	द	का
मि			तों			
सु	नी	ल	अ	धी	र	जी

सू-दोकू-69

	3			7	
9		6		3	8
7		9	5	6	
3	8	7	7	1	9
	1	3	9	7	7
			2		4
					3

नियम

- कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9 वर्गों का एक खंड बना है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक रखेंगे।
- बाएँ से दायें और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कालम और खंड में 1 से 9 तक के सभी क्रिती भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोकू क्र.68 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6